

“एम्पैथी इन्फ्रा एण्ड इंजीनियरिंग प्रालि.” के हितधारकों (लेनदारों सहित) को ( कॉर्पोरेट ऋण शोधन समाधान प्रक्रिया) <p>सार्वजनिक सूचना</p> यह सूचना पूर्व के अन्तिम समाधान प्रोफेशनल, श्री अमित जैन द्वारा समाचार-पत्र (जनसत्ता-हिन्दी) तथा फाईनॅशियल एक्सप्रेस-अंग्रेजी) में 23.12.2019 को की गयी हालिया सार्वजनिक घोषणा के सम्बन्ध में है। मैसर्स एम्पैथी इन्फ्रा एण्ड इंजीनियरिंग प्रालि, के हितधारकों से यह ध्यान देने का निवेदन है कि माननीय एनएफएलटी चाण्डीगढ़ पीएन ने अपने आदेश दिनांक 24.02.2020 के माध्यम से अग्रोहस्ताक्षरी को पूर्व के अन्तिम समाधान प्रोफेशनल, श्री अमित जैन के स्थान पर अन्तिम समाधान प्रोफेशनल नियुक्त किया है। अतः हितधारकों से कॉर्पोरेट लेनदार मैसर्स एम्पैथी इन्फ्रा एण्ड इंजीनियरिंग प्रालि, की कॉर्पोरेट ऋण शोधन समाधान प्रक्रिया के सम्बन्ध में इस सूचना की तिथि से सम्मत् भावी सम्पर्क के लिए अग्रोहस्ताक्षरी से सम्पर्क करने का निवेदन किया जाता है। ऋण शोधन समाधान प्रक्रिया के प्रासंगिक विवरण निम्नलिखित है <span> </span> :
<span></span>
प्रारंभिक विवरण
कॉर्पोरेट देनदार का नाम
सीआरएन
कॉर्पोरेट देनदार का पंजीकृत पता
आईआरपी का नाम (24.02.2020 से)
पंजीकरण संख्या
आईआरपी का पंजीकृत पता
सम्पर्क हेतु आईआरपी का पता
तिथि <span> </span> : 13.03.2020
स्थान <span> </span> : नई दिल्ली
पंजीकरण सं. <span> </span> : IBBI/IRA-001/IP-P00541/2017-2018/10966

सार्वजनिक सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे क्लाइंट, मैसर्स मुथुट फाईनान्स लि. (GSTIN 32AABCT03438127), पंजीकृत कार्यालय: तल 2, मुथुट चेम्बर्स, बैनर्जी रोड, कोयिब – 682018, केरल, भारत, CIN: L65910KL1997PLC011306, दूरभाष: +91 484-2396478, 2394712, फॅक्स: +91 484-2396506, mails@muthoolgroup.com, www.muthoolfinance.com ऋण चुकाने में असफल ऋणियों के गिरीबो रखे सोने के गहनों (31.12.2018 की अवधि तक NPA खाती) की निम्नलिखित विवरणों के अनुसार नीलामी करेगी। इच्छुक सभी व्यक्ति भाग ले सकते हैं।
<b>नीलामी की तिथि: 21.03.2020</b>
<b>Sardar Shahar:</b> MUL-480, 485, 505, 567, 608, 669, 792, 1064, 1096, 1130, 1285, 1468
<b>Date of Auction: 23.03.2020</b>
<b>Churu Nai Sadak:</b> MGL-1326, MSL-4578, MUL-102, 160, 201, 269, 276, 279, 504, 554, 613, 616, 636, 668, 681, 703, 707, 730, 781, 852, 930, 935, 968, 975, 1080, 1640
<b>नीलामी की तिथि: 24.03.2020</b>
<b>Kuchaman:</b> MBL-748, MUL-1004, 1156, 1268, 1348, 1413, 1593, 2204, 2577, 2700, 2993
<b>नीलामी की तिथि: 25.03.2020</b>
<b>Makrana:</b> MUL-51, 114, 395, 603, 609, 659, 671, 680, 691, 776, 778, 808, 892, 1072, 1163, 1291, 1523, 1706, 1712, 1960, 2133, 2347, 2433
<b>नीलामी की तिथि: 26.03.2020</b>
<b>Sujanagar:</b> MUL-581, 616, 838, 855, 878, 933, 937, 938, 990, 994, 995, 1042, 1048, 1081, 1184, 1229, 1458, 1547, 1707, 1854, 1898, 1944, 2023, 2164, 2200, 2448, 2709, 2809, 3004, 3429
<b>कम शुद्धता के गहनों की नीलामी (30.08.2019 की अवधि तक एनपीए खाते)</b>
<b>नीलामी की तिथि: 21.03.2020</b>
<b>Sardar Shahar:</b> MGL-404, MSL-3010, 3011, MUL-976, 1166
<b>नीलामी की तिथि: 23.03.2020</b>
<b>Churu Nai Sadak:</b> MUL-896, 1559, 1569, 1971, 2014, 2092, 2969
<b>नीलामी की तिथि: 25.03.2020</b>
<b>Makrana:</b> MUL-2273, 3981
<b>नीलामी की तिथि: 26.03.2020</b>
<b>Sujanagar:</b> MUL-1590, 2901
नीलामी नीचे दिखाए अनुसार जिस साखा हेड में ग्राहक का ऋण खाता है क्रमशः उन्हीं शाखाओं में संचालित की जाएगी।
हालाँकि, कृपया यह ध्यान रखें कि यदि निर्धारित तिथि (तिथियों) में नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती तो ऐसी नीलामी आगामी तिथियों में भी इसी स्थान पर जारी रहेगी। इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचनाएं नहीं दी जाएगी।
<b>कोहली एंड सोनी, एडवोकेट,</b>
<b>ए 59ए, पहली मंजिल, लापयत नगर-II, नई दिल्ली – 110024</b>
<b>नोट:</b> ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट की बकाया राशि का गुप्तता लेकर अपने गहनों की गिरीबो छुड़ा सकते हैं। ग्राहक ईमेल आईडी auctiondelhi@muthoolgroup.com या 7834886464,7994452461 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

<b>फॉर्म ए</b> <p><b>सार्वजनिक उत्प्रेक्षण</b></p>
<p>(भारतीय विद्यादा और शोधन अकादमी बोर्ड (सर्वोच्च सामाज्य प्रक्रिया) विनियम, 2017 के विनियम 14 के अंतर्गत)</p> <p><b>जय मों वैष्णो लोहा प्राइवेट लिमिटेड के हितधारकों को ध्यानार्थ</b></p>
<p>1. कॉर्पोरेट व्यक्ति का नाम</p> <p>2. कॉर्पोरेट व्यक्ति के गठन की तिथि</p> <p>3. प्राधिकरण जिसके अधीन कॉर्पोरेट व्यक्ति पंजीकृत है</p> <p>4. कॉर्पोरेट व्यक्ति की कॉर्पोरेट पहचान संख्या</p> <p>5. कॉर्पोरेट व्यक्ति के पंजीकृत कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता</p> <p>6. कॉर्पोरेट व्यक्ति के संबंध में दिनांक</p> <p>7. परिचयपत्र का नाम, पता, ई-मेल पता और टेलीफोन नंबर पंजीकरण संख्या</p> <p>8. दायों को जमा करने की अंतिम तिथि</p>
<p>जय मों वैष्णो लोहा प्राइवेट लिमिटेड</p> <p>25/07/2007</p> <p>कंपनी पंजीकरण,—कानपुर (उ.प्र.)</p> <p>U27310UP2007PTC033668</p> <p>4 केएम स्टोन, ऑर्गेनिकल टाटा घर्भ कटा</p> <p>बैलाना चौक, मेरठ रोड मुजफ्फरनगर गुरग 251003</p> <p>आलोक कुमार कुच्छल</p> <p>इलेक्ट्रॉनिकी प्रोफेशनल</p> <p>आर/ओ<span> </span>: सी-154, सैक्टर-51 एनोला-201301</p> <p>फोन नंबर +91-9810894275</p> <p>ईमेल आई डी<span> </span>: akkuchhal.ip@gmail.com</p> <p>कौटुम्बिक नंबर<span> </span>: IBBI/PA-02/IP-N00114/2017-18/10284</p> <p>08/04/2020</p>
<p>एप्रदाशना सूचित किया जाता है कि <b>जय मों वैष्णो लोहा प्राइवेट लिमिटेड</b> ने <b>09 मार्च, 2020</b> को सर्वोच्च परिचालन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है।</p> <p><b>जय मों वैष्णो लोहा प्राइवेट लिमिटेड</b> के सभी हितधारकों को आइटम नंबर 7 के सामने उपलब्ध किया पते पर अपने दायों के प्रमाण परिचालन के पास <b>06 अप्रैल, 2020</b> तक या उससे पूर्व जमा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।</p> <p>विशिष्ट लेनदार को केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से अपना दावा जमा करना होगा। अन्य सभी हितधारकों व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से अपने दायों के प्रमाण जमा कर सकते हैं।</p> <p>दायों के जुड़े या निष्ठा प्रमाण जमा करने पर दखित किया जावेगा।</p>
<p>हस्ताक्षर /—</p> <p>आलोक कुमार कुच्छल</p> <p>लिक्विडेटर के हस्ताक्षर</p> <p>IBBI/PA-02/IP-N00114/2017-18/10284</p>
<p>दिनांक<span> </span>: 12 मार्च, 2020</p> <p>स्थान<span> </span>: नोएडा</p>

<b>Form G</b>	
<b>INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST</b>	
<b>(Under Regulation 36A (1) of the Insolvency and Bankruptcy</b>	
<b>(Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016</b>	
<b>RELEVANT PARTICULARS</b>	
1. Name of the corporate debtor	<b>RG INFRA-BUILD PRIVATE LIMITED</b>
2. Date of incorporation of corporate debtor	15/04/2005
3. Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	Registrar of Companies- Delhi
4. Corporate identity number / limited liability identification number of corporate debtor	U70101DL2005PTC135052
5. Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	Regd Off: G-02, Ground Floor, Plot No. SULSC B-Block RG City Centre, Lawrence Road Delhi-35
6. Insolvency commencement date of the corporate debtor	25.09.2019
7. Date of invitation of expression of interest	14.03.2020
8. Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(b) of the Code is available at:	The Resolution Professional by email at: rakeshjanca@rediffmail.com
9. Norms of eligibility applicable under section 29A are available at:	The Resolution Professional by email as mentioned in column No.8.
10. Last date for receipt of expression of interest	30.03.2020
11. Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	06.04.2020
12. Last date for submission of objections to provisional list	11.04.2020
13. Date of issue of final list of prospective resolution applicants	18.04.2020
14. Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants	11.04.2020
15. Manner of obtaining request for resolution plan, evaluation matrix, information memorandum and further information.	The Resolution Professional by email as mentioned in column No.3.
16. Last date for submission of resolution plans	11.05.2020.
17. Manner of submitting resolution plans to resolution professional	Sealed envelope by post/ by hand to Resolution Professional at the correspondence address. It should also be submitted in electronic mode in a password protected pen drive.
18. Estimated date for submission of resolution plan to the Adjudicating Authority for approval	02.06.2020.

<b>RAKESH KUMAR JAIN</b> Resolution Professional	<b>RG INFRA BUILD PRIVATE LIMITED</b>
Date <span> </span> : 14/03/2020	Regd No: IBBI/ IPA-001/IP-P0129/2018-19/12068
Place <span> </span> : New Delhi	Regd Address: 1203/81, 1st Floor, Shanti Nagar, Tri-Nagar, Delhi- 110035

“एम्पैथी इन्फ्रा एण्ड इंजीनियरिंग प्रालि.” के हितधारकों (लेनदारों सहित) को ( कॉर्पोरेट ऋण शोधन समाधान प्रक्रिया) <p>सार्वजनिक सूचना</p> यह सूचना पूर्व के अन्तिम समाधान प्रोफेशनल, श्री अमित जैन द्वारा समाचार-पत्र (जनसत्ता-हिन्दी) तथा फाईनॅशियल एक्सप्रेस-अंग्रेजी) में 23.12.2019 को की गयी हालिया सार्वजनिक घोषणा के सम्बन्ध में है। मैसर्स एम्पैथी इन्फ्रा एण्ड इंजीनियरिंग प्रालि, के हितधारकों से यह ध्यान देने का निवेदन है कि माननीय एनएफएलटी चाण्डीगढ़ पीएन ने अपने आदेश दिनांक 24.02.2020 के माध्यम से अग्रोहस्ताक्षरी को पूर्व के अन्तिम समाधान प्रोफेशनल, श्री अमित जैन के स्थान पर अन्तिम समाधान प्रोफेशनल नियुक्त किया है। अतः हितधारकों से कॉर्पोरेट लेनदार मैसर्स एम्पैथी इन्फ्रा एण्ड इंजीनियरिंग प्रालि, की कॉर्पोरेट ऋण शोधन समाधान प्रक्रिया के सम्बन्ध में इस सूचना की तिथि से सम्मत् भावी सम्पर्क के लिए अग्रोहस्ताक्षरी से सम्पर्क करने का निवेदन किया जाता है। ऋण शोधन समाधान प्रक्रिया के प्रासंगिक विवरण निम्नलिखित है <span> </span> :
<span></span>
प्रारंभिक विवरण
कॉर्पोरेट देनदार का नाम
सीआरएन
कॉर्पोरेट देनदार का पंजीकृत पता
आईआरपी का नाम (24.02.2020 से)
पंजीकरण संख्या
आईआरपी का पंजीकृत पता
सम्पर्क हेतु आईआरपी का पता
तिथि <span> </span> : 13.03.2020
स्थान <span> </span> : नई दिल्ली
पंजीकरण सं. <span> </span> : IBBI/IRA-001/IP-P00541/2017-2018/10966

नई दिल्ली

## व्यापार

**विमानन कंपनियां टिकट रद्द करने का शुल्क माफ करने पर विचार करें: नियामक**

नई दिल्ली, 13 मार्च ( भाषा) । टिकट रद्द करने और यात्रा तारीख में बदलाव को लेकर लगने वाले शुल्क को माफ करने या अन्य कोई प्रोत्साहन देने पर विचार करने को कहा है।

डीसीबी बैंक लिमिटेड	अचल सम्पत्ति के लिये कच्चा सूचना
7/56, 3रा तल, देशबन्धु गुला रोड कानल बाग, नई दिल्ली-110005	[ नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार]
<span></span>	जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन [ अधिनियम, 2002 (2020 के 54)] के अंतर्गत डीसीबी बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अग्रोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 07.08.2019 जारी कर ऋणधारक/सह-ऋणधारक/ सह-आवेदक: मो. फारूक आज़म तथा मुस्तफ़ जहाँ को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 32,63,974/- (रुपए बत्तीस लाख नवहत्तर हजार नौ सौ चौराह मार) वापस लौटाने का निर्देश दिया था। ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 9 मार्च, 2020 को अग्रोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अग्रोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कच्चा कर लिया है। विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 5.3.2020 को रु. 35,86,382.54/- (रुपए पैंतीस लाख छियासी हजार तीन सौ बयासी एवं पैसे चौवन मात्र) तथा उस पर व्याज की राशि के लिये डीसीबी बैंक लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा। आपका ध्यान उक्त अधिनियम, 2002 की धारा 13(8) के प्रति आकृष्ट की जाती है जिसके अनुसार यदि आप बिज्ी का प्रत्येक के प्रकचन की तिथि से पूर्व ध्यान, चार्जज तथा खर्च के साथ सभी बकाये भुगतान कर देते हैं तो प्रतिभूत परिसम्पत्ति विमोचित की जा सकती है।
<span></span>	अचल सम्पत्ति का विवरण
प्लॉट नं. एल-85, फ़ाउंट साइट फ्लैट, एस्फ़क, प्रताप विहार, गाँजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201001	हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी
तिथि: 11.3.2020	डीसीबी बैंक लिमिटेड
स्थान: दिल्ली	

एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड
6वीं मंजिल, द मेट्रोपोलिटन बिल्डिंग, बान्ना-कुर्ना कॉम्पलेक्स, बाग़ (पू.) मुम्बई-400051, दूरभाष <span> </span> : 30440300/ 7738362525/ 8800559395, फैक्स <span> </span> : 26572006/2072, vp.dcbt@sbiglobal.in/debt_idt@sbiglobal.in
<b>एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड वित्तीय आसित्यों की बिज्ी हेतु ई-नीलामी के माध्यम से बैंकों/एसआरसी/एनबीएफसी/एफआई से संचितवर्ण आमंत्रित करते हैं</b>
बैंक द्वारा समय-समय पर प्रदर्शित होने वाली ऐसी वित्तीय आसित्यों के ऋय हेतु बोली लगाने में इच्छुक बैंक/एसआरसी/एनबीएफसी/एफआई, यदि पहले से क्रियान्वित नहीं है तो बैंक के साथ गैर-प्रकटन समझौते के क्रियान्वयन के परचात बोली लगाने की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। बैंक के साथ गैर-प्रकटन अनुकन्य के क्रियान्वयन तथा अन्य पुष्टताछ, यदि कोई हो, के लिए ऐसे इच्छुक बैंक/एसआरसी/एनबीएफसी/एफआई ई-मेल आईडी vp.dcbt@sbiglobal.in/debt_idt_0@sbiglobal.in पर सम्पर्क कर सकते हैं। एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड कुल बकाया रु. 55.44 करोड़ सहित (5) वित्तीय आसित्यों से निर्मित अपने गैर-निष्पादन आसित्यों (एनपीए) के प्रस्तावित बिज्ी हेतु बैंक/एसआरसी/एनबीएफसी/एफआई से रुचि की अधिव्यक्ति आमंत्रित करता है। इच्छुक सम्भावित सचिदाकारों से “रुचि की अधिव्यक्ति” के माध्यम से ई-नीलामी में भाग लेने की अपनी इच्छा सूचित करने का निवेदन है। कृपया कम्पनी की वेबसाइट https://www.sbiglobal.in देखें। अधिक विवरण के लिए Link news & events/c-auction पर क्लिक करें।
स्थान <span> </span> : मुम्बई
तिथि <span> </span> : 14.03.2020
<b>एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड</b>

**RELAXO FOOTWEARS LIMITED**

CIN No.: L74899DL1984PLC019097

**RELAXO** Registered Office: Aggarwal City Square, Plot No. 10,  
Manglam Place, District Centre, Sector-3, Rohini, Delhi - 110085  
Ph: 91-11-46800600, 46800700, Fax No: 91-11-46800692  
E-mail: ril@relaxofootwear.com, Website: www.relaxofootwear.com

**NOTICE**

Notice is hereby given that the under mentioned share certificates pertaining to shares of the Company have been reported lost and request(s) for issue of duplicate Certificates in lieu thereof have been received by the Company.

FOLIO NO.	NAME OF HOLDER	CERT. NO(S)	DISTINCTIVE NOS.	NO. OF SHARES	FACE VALUE OF SHARES (in ₹)
RNE0000298	BABU LAL GUPTA	100033	58086-60085	2000	1.00

Any person having any claim / objection in respect of the above requests should lodge such claim / objection with Kfin Technologies Private Limited, Company's Registrar and Share Transfer Agent at its office situated at Kavya Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Hyderabad-500032 or with the Company at its registered office or corporate office at Aggarwal City Square, Plot No. 10, Manglam Place, District Centre, Sector-3, Rohini, Delhi – 110 085 within 15 days of the publication of this notice, failing which the Company will consider to give effect to the above requests.

<b>PUBLIC NOTICE</b>
<b>NOTICE</b> is hereby given that our Client is investigating the title of the owner to the Property (as set out in the Schedule below).
All persons having any encumbrances, claims or rights of any nature whatsoever against or in respect of the Property or any part thereof following by way of legal title, ownership rights, tenancy, inheritance, share, partition, mortgage, lien, sale, exchange, gift, lease, sub-lease, license, development rights, charge, maintenance, easement, possession, possession of original title deeds, occupation and/or beneficial rights under any trust, right of prescription or pre-emption or under any agreement, arrangement or disposition or any decree, order or award passed by any Court or authority howsoever, or otherwise claiming any other rights whatsoever, are hereby requested to intimate the same in writing along with all supporting papers, writings or documents at our office at <b>Shardul Amarchand Mangaldas &amp; Co., Express Towers, 23<sup>rd</sup> Floor, Nariman Point, Mumbai - 400 021, India within 7 (Seven) days from the date of publication of this notice, failing which such claim, right or encumbrances and the claims, rights or encumbrances, if any, of such person, entity, association, firm etc. shall be treated as waived or abandoned.</b>
<b>SCHEDULE</b> (Description Of The Property)
Residential build up area 4,458 sq. ft. spread across basement, ground floor, and area at stilts with proportionate land rights of a residential plot no. F-4/10 situate at F-4/10, Vasant Vihar, New Delhi.
Dated this 14 <sup>th</sup> day of March, 2020.
<b>Shardul Amarchand Mangaldas &amp; Co.</b> Express Towers, 23 <sup>rd</sup> Floor, Nariman Point, Mumbai - 400 021 Tel: 022 49335555 <b>Kind Attn: Mr Tarun Rao</b> Email: tarun.rao@AMSShardul.com   Tel: 022 49335569

# द जम्मु एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड

अंचल कार्यालय (उत्तर), प्लॉट नं. 132-134, बक्कर 44,  
गुरग्राँव (हरियाणा) भारत, GSTIN: 06AAAC216765G1ZB  
टी: +91(0)124-4715800, एफ: +91(0)124-4715800,  
ई: iapmdn.del@jkbmail.com W: www.jkbank.net  
बाधित परिसम्पत्ति पोर्टफोलियो प्रबंध विभाग

## (कच्चा सूचना)

(अचल सम्पत्ति के लिये) [दिशे नियम 8(1)]

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत द जम्मु एंड कश्मीर बैंक लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अग्रोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 4.6.2019 जारी कर ऋणधारकों एवं गारंट्टरों, ऋणधारकों श्रीमती नीरज गर्ग, पत्नी श्री सजीव कुमार, निवासी: एफ-1 सर्वोद्यम अपार्टमेंट-राधेश्याम पार्क जौ टी. रोड सहिवाबाद, गाँजियाबाद एवं श्री सजीव कुमार, पुत्र श्री मोरेश प्रवेश कुमार (ऋणधारक सह-गारंटीजर) निवासी: एफ-1 सर्वोद्यम अपार्टमेंट-राधेश्याम पार्क जौ टी. रोड सहिवाबाद, गाँजियाबाद एवं गारंट्टरों नं. 1, श्री प्रवीण कुमार सिंघल, पुत्र श्री अशोक कुमार सिंघल, निवासी: एफ-1, सर्वोद्यम अपार्टमेंट नैन जी टी रोड, सहिवाबाद, गाँजियाबाद 201005, गाररन्टर नं.-2, श्री निरीश गोयल, पुत्र श्री एम.सी. गोयल, निवासी: 1051, रोलेशन गार, शाहदरा, दिल्ली-110032 को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 31.05.2019 के रु. 1024719/- ( रुपये दस लाख चौबीस हजार सात सौ उनीस मात्र) के साथ आगे का व्याज, लागत, चार्जज आदि वापस लौटाने का निर्देश दिया था। ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 12 मार्च, 2020 को अग्रोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अग्रोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कच्चा कर लिया है। विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 31.05.2019 के रु. 1024719/- ( रुपये दस लाख चौबीस हजार सात सौ उनीस मात्र) के साथ आगे का व्याज, लागत, चार्जज आदि के लिये द जम्मु एंड कश्मीर बैंक लि. (बीओ- नवीन शाहदरा) के चार्ज के अधीन होगा। ऋणधारका का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

## अचल सम्पत्ति का विवरण

श्रीमती नीरज गर्ग तथा श्री सजीव गर्ग के नाम में प्लॉट नं. 3 में स्थित फ्लैट नं. एफ-1, जी प्लेनो, सर्वोद्यम अपार्टमेंट नैन जी रोड श्याम पार्क गाँजियाबाद (उ.प्र.) जिसका कवर्ड एरिया 600 वर्ग फीट (लाभदा) है।

## व्यापार

# की बिक्री 19.08 फीसद गिरी

रफ्त के अनुसार
समीक्षाविधि में यात्री वाहनों की घरेलू बिक्री 7.61 फीसद गिरकर 2,51,516 वाहन रही जो फरवरी 2019 में 2,72,243 वाहन थी। कारों की बिक्री 8.77 फीसद घटकर 1,56,285 वाहन रही जो पिछले साल फरवरी में 1,71,307 वाहन थी।
शामिल किया जाने वाला एक कानूनी प्रावधान है। यह प्रावधान संबंधित पक्षों को उनके निर्यत्रण से बाहर की कोई परिस्थिति बनने की स्थिति में अनुबंध की कानूनी बाध्‍यताओं से राहत प्रदान करता है।

# सोना 1,097 रुपए टूटा

अधिक टूटने के बाद अंत में अच्छी बढ़त के साथ बंद हुए। इससे पिछले सत्र में सोना 43,697 रुपए प्रति दस ग्राम पर बंद हुआ था। सोने की तर्ज पर चांदी भी 1,574 रुपए के नुकसान के साथ 44,130 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। गुरुवार को चांदी 45,704 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। एचडीएफसी सिस्कोरिटीज वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) तपन पटेल ने कहा कि दिल्ली में 24 केप्ट सोने का हाज़िर भाव 1,000 रुपए से अधिक के नुकसान पर चल रहा था। पटेल ने कहा कि रिजर्व बैंक के हस्तक्षेप के बाद रुपया 23 पैसे की बढ़त में था। वैश्विक स्तर पर अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना बढ़त के साथ 1,584 डॉलर प्रति औंस पर था। वहीं चांदी गिरावट के साथ 15.65 डॉलर प्रति औंस पर रहा।

गुमशुदा /अपह्त की तलाश
<span></span>
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि एक लड़की जिसका नाम: <b>भूमि, पुत्री: श्री दिनेश कुमार, पता: नमन नं.-213, जेजे चैम्स टिगरी, नई दिल्ली, उम्र: 09 साल, कद: 3', चेहरा: गोल, रंग: गोरा, पहनावा: गुलाबी रंग का स्वेटर एवं हरे रंग का पतामा घुने हुए, जो दिनांक 05.01.2016 से अपने घर से लापता/ अपहृत है। इस बाबत <b>FIR No. 22/16 u/s 363 IPC, दिनांक 06.01.2016, थाना: नेब सराय, नई दिल्ली</b> में दर्ज है।</b>
स्थानीय पुलिस द्वारा हर संभव कोशिश के बाद भी इस लापता/अपहृत लड़की के बारे में कुछ मालूम नहीं हो पाया है। अगर किसी को भी इस लापता/अपहृत लड़की के बारे में जानकारी मिले तो कृपया निम्नलिखित पर सूचित करें।
<b>वेबसाईट: http://cbi.nic.in ई-मेल: cic@cbi.gov.in फ़ोन: 011-24368639 DP/24/SD/2020</b>
<b>थाना प्रमुख पुलिस स्टेशन, नेब सराय, नई दिल्ली फ़ोन: 011-29551326, 8758070835</b>

ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली
दिल्ली 4था तल, जीवनदास भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, पटेल चौक, नई दिल्ली-110001
आरसी. सं. 957/2018
बिज्ी की उद्घोषणा
किसिस बैंक ... प्रमाणपत्र धारक वित्तीय वर्गों एवं अन्य ... प्रमाणपत्र देनदार
सांक्षी नं.: 1. सीधय वर्मा, एल 179, सरौजीनगर, भूलत निक्ट आरबीआई कार्यालय, नई दिल्ली-110023
सांक्षी नं.: 2. श्रेष्ठ पैरिवारियल सेक्टर 06, एक्सप्रेसवे नि



RELAXO FOOTWEAR LIMITED

CIN No.: L74899DL1984PLC019097

Registered Office: Aggarwal City Square, Plot No. 10, Manglam Place, District Centre, Sector -3, Rohini, Delhi - 110085

Ph: 91-11-46800600, 46800700; Fax No: 91-11-46800692

E-mail: [rl@relaxofootwear.com](mailto:rl@relaxofootwear.com), Website: [www.relaxofootwear.com](http://www.relaxofootwear.com)

NOTICE

Notice is hereby given that the under mentioned share certificates pertaining to shares of the Company have been reported lost and request(s) for issue of duplicate Certificates in lieu thereof have been received by the Company.

FOLIO NO.	NAME OF HOLDER	CERT.NO(S)	DISTINCTIVE NOS.	NO. OF SHARES	FACE VALUE OF SHARES (in ₹)
RNE0000298	BABU LAL GUPTA	100033	58086-60085	2000	1.00

Any person having any claim / objection in respect of the above requests should lodge such claim / objection with Kin Technologies Private Limited, Company's Registrar and Share Transfer Agent at its office situated at Kavya Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Hyderabad-500032 or with the Company at its registered office or corporate office at Aggarwal City Square, Plot No. 10, Manglam Place, District Centre, Sector-3, Rohini, Delhi – 110 085 within 15 days of the publication of this notice, failing which the Company will consider to give effect to the above requests.

For Relaxo Footwears Limited

Place: New Delhi

Date: 13<sup>th</sup> March, 2020

Sd/- Vikas Kumar Tak  
Company Secretary

18 INTERNATIONAL

**PUBLIC ANNOUNCEMENT**

Pursuant to Regulation 31(2) read with regulation 12(3) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations 2016

In the matter of

**YAMUNA INFRADEVELOPERS PRIVATE LIMITED**

(CIN: U70200DL2012PTC233903) - In Liquidation

All concerned are hereby informed that the undersigned acting as Liquidator in the matter of **YAMUNA INFRADEVELOPERS PRIVATE LIMITED** (under Liquidation), has filed the list of stakeholders with the Hon'ble National Company Law Tribunal, New Delhi, on 12<sup>th</sup> March, 2020 pursuant to the provisions of Regulation 31(2) read with Regulation 12(3) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations 2016.

As there is no functional website of the Company (Corporate Debtor), hence the **List of Stakeholders** showing complete details of amount of Claims Admitted by the Liquidator, extent upto which claims are secured/unsecured, will be available for inspection at the office of the **Liquidator -> 45-46, Basement, Satya Niketan, Moti Bagh-II, New Delhi-110021.**

The Stakeholders are further notified that any modification of entries in the List of Stakeholders, as filed with the Hon'ble NCLT, can be made only by filing an application with the Hon'ble NCLT.

RITA GUPTA

Date : 14.03.2020

Place : New Delhi

Liquidator - YAMUNA INFRADEVELOPERS PRIVATE LIMITED

REG NO: IBB/IIPA-001/IP-P00149/2017-18/10313

Email: [liq.ypl@gmail.com](mailto:liq.ypl@gmail.com), [rita\\_1996@yahoo.co.in](mailto:rita_1996@yahoo.co.in)

**TO THE STAKEHOLDERS (INCLUDING CREDITORS) OF "EMPATHY INFRA AND ENGINEERING PVT. LTD." (UNDER CORPORATE INSOLVENCY RESOLUTION PROCESS)**

**PUBLIC NOTICE**

This notice is with reference to earlier public announcement made by Erstwhile Interim Resolution Professional, Mr. Amit Jain in newspaper (Jansatta – Hindi and Financial Express – English) on 23.12.2019. Stakeholders of M/S EMPATHY INFRA AND ENGINEERING PVT. LTD. are requested to note that Hon'ble NCLT Chandigarh Bench vide its order dated 24.02.2020 has appointed the undersigned as the Interim Resolution Professional of the M/s Empathy Infra and Engineering Pvt. Ltd. in replacement of Erstwhile Interim Resolution Professional, Mr. Amit Jain. Hence stakeholders are requested to communicate with the undersigned for all future communications from the date of this notice in connection with the Corporate Insolvency Resolution Process of the Corporate Debtor M/s Empathy Infra and Engineering Pvt. Ltd. The relevant details of Corporate Insolvency Resolution Process are mentioned below:-

RELEVANT PARTICULARS	
1 Name of Corporate Debtor	Empathy Infra and Engineering Private Limited
2 CIN	U45400HR2012PTC047281
3 Registered Address of corporate debtor	305 C, Third Floor, Sohna Road, Sector 48, Gurgaon, Haryana-122002
4 Name of IRP (from 24.02.2020)	Mr. Pardeep Kumar Lakhani
5 Registration No.	IBBI/IIPA-001/IP-P00541/2017-2018/10966
6 Registered Address of IRP	879, Sector 40, Near Community Centre, Gurgaon, Haryana, 122012
7 Address of IRP for communication	KVG Insolvency Advisors Pvt. Ltd. C/o Pardeep Kumar Lakhani 405, New Delhi House, 27 Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi-110001

Date: 13.03.2020

Place: New Delhi

Pardeep Kumar Lakhani

Interim Resolution Professional

Empathy Infra Engineering Pvt. Ltd.

Reg. No.: IBB/IIPA-001/IP-P00541/2017-2018/10966

Form No.:5

**DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, LUCKNOW**

600/1, University Road, Near Hanuman Setu Temple, Lucknow-226007.

(Area of Jurisdiction: Part of Uttar Pradesh)

**Summons for filling Reply & Appearance by Publication**

O.A. No. 355/2019

Date: 27.02.2020

Summons to defendants under Section 19(3) of the Recovery of debts due to the Banks and Financial Institutions Act, 1993 read with rule 12 and 13 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure Rules 1993)

Syndicate Bank, .....Applicant.

Versus

Chandani Garg And Another.....Defendants

To,

1- Smt. Chandani Garg D/o Subhash Chand Garg W/o Yogendra Pratap Singh, D-901, Subhkamana Apartments, F-31, Sector - 50, Noida, District - Gautam Buddh Nagar - 201301 & 417, Avas Vikas, Roorkhee (Uttarakhand) - 247667.

2- M/s La Residencia Developers Pvt. Ltd., Registered Office at - 220, 2nd Floor, Vardhaman Sunrise Plaza, Plot No. - 1, SSC, Vasundara Enclave, Delhi - 110096 & Corporate Office At - Amrapali Corporate Tower, C-56/40, Sector - 62, Noida, District - Gautam Buddh Nagar - 201309 & Flat No. T-7, 1904, 19th Floor, Tower - T-7, Amrapali La - Residencia, situated at Plot No. GH-06A, Noida Extension, Tehzone, District - Gautam Buddh Nagar Through Authorized Signatory.

In the above noted application, you are required to file reply in Paper Book form in two sets along with documents and affidavits, (if any) personally or through your duly authorized agent or legal practitioner in this Tribunal, after serving copy of the same on the applicant or his counsel/ duly authorized agent after publication of the Summons, and thereafter to appear before the Tribunal on 28/05/2020 at 10:30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence.

Registrar: Debts Recovery Tribunal, Lucknow.

**DEBTS RECOVERY TRIBUNAL-III, AT DELHI**

DELHI 4th FLOOR, JEEVAN TARA BUILDING, PARLIAMENT STREET, PATEL CHOWK, NEW DELHI-110001

RC No. 937/2018

**PROCLAMATION OF SALE**

PROCLAMATION OF SALE UNDER RULES 38, 52(2) OF SECOND SCHEDULE TO THE INCOME TAX ACT, 1961 READ WITH THE RECOVERY OF DEBTS DUE TO BANK AND FINANCIAL INSTITUTIONS ACT, 1993

**AXIS BANK - Certificate Holder VERSUS SAURABH VERMA & OTHERS.** Certificate Debtor

CD No. 1: Saurabh Verma, L 179, Sarojini Nagar, Ground Floor Near RBI Office, New Delhi 110023 Also at: Grande Pavilion Sec 96, Expressway Near Anjali Society, Noida 201305

CD No. 2: Kritika Nigam, L 179, Sarojini Nagar, Ground Floor Near RBI Office, New Delhi 110023

CD No. 3: Jaipuria Buldoin Private Limited, 2nd Floor, 16 Shankar Vihar, Vikas Marg, Delhi 92. Also at: 507, STN Floor, KM Trade Tower, Sector 14, Radisson Blu, Kaushambi, Ghaziabad.

Also at: Jaipuria Buldoin Private Limited, Flat No. 1302, G.H. 7, Sector 3, Sky Tech Magadh Society, Vaishali, Ghaziabad.

CD No. 4: Ashok Goel, Director of the Jaipuria Buldoin Private Limited Flat No. 1301, Skytech Magadh Society, Sec. 4, Vaishali, Ghaziabad.

CD No. 5: Vandana Goel Ashok, Director of the Jaipuria Buldoin Private Limited Flat No. 1301, Skytech Magadh Society, Sec. 4, Vaishali, Ghaziabad.

Whereas you have failed to pay the sum of Rs. 21,90,517/- (Rupees Twenty one Lakhs Ninety Thousand Five Hundred and Seventeen Only), has become due from you as per Recovery Certificate drawn in **OA No. 528 of 2015 /DRT-III** by the Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal-III, Delhi along with cost, incidental expenses and interest payable @ 10% p.a simple interest w.e.f 30.07.2015, as per certificate. And whereas the undersigned has ordered the sale of property mentioned in the Schedule below in satisfaction of the said certificate.

Notice is hereby given that in absence of any order of postponement, the said property shall be sold on **10.04.2020 between 3.00 PM to 4.00 PM** (with auto extension clause in case of bid in last 5 minutes before closing, if required) by M/s. C-1 India Pvt. Ltd., Udoy Vihar, Phase 2, Sector 3, 301, Gurgaon, Haryana (India) Tel: +91 7291981124/25/26 Contact person Sh. Vinod Chauhan, Mobile No. 98879011 email: [support@bankforestates.com](mailto:support@bankforestates.com), Website <https://www.bankforestates.com>

For further details contact: Bank officer Sh. abhinav Kumar Pandey having mobile No. 991966502.

The sale will be of the property of the defendant above named as mentioned in the schedule below and the liabilities and claims attaching to the said property, so far as they have been ascertained, are those specified in the schedule attached each lot.

No offer or other person, having any duty to perform in connection with sale, however, either directly or indirectly bid for, acquire or attempt to acquire any interest in the property sold. The sale shall be subject to the conditions prescribed in Second Schedule of the Income Tax Act, 1961 and the rules made there under and to the further following conditions.

The particulars specified in the annexed schedule have been stated to the best of the information of the undersigned, but the undersigned shall not be answerable for any error, mis-statement or omission in this proclamation.

1. The description of properties, Reserve Price and EMD are as under:

S. No.	Property particulars	Reserve price/EMD
1	Property bearing No. Flat No. B-1101, 11th Floor, Block-B, Jaipuria Appt., Sector-1, GH-6, Crossing, Dunderha, Ghaziabad.	Rs.30,36,000/- (Rupees Thirty Lakhs Thirty Six thousand Only) EMD- 3.03,600/- (Rupees Three Lakhs Three Thousand Six Hundred Only)

The properties shall not be sold below the reserve price:

2. The amount by which the biddings are to be increased shall be **Rs. 50,000/- (Rupees fifty Thousands Only)**. In the event of any dispute arising as to the amount of bid, or as to the bidder, the property shall or can be again put up to auction.

3. The highest bidder shall be declared to be the successful highest bidder. It shall be in the discretion of the undersigned to decline/acceptance of the highest bid when the price offered appears so clearly inadequate as to make it inadvisable to do so.

4. EMD shall be deposited by **08.04.2020 way of DD/pay order in favour of Recovery Officer-I, Debt Recovery Tribunal-III, Delhi in the sealed cover.** EMD deposited thereafter shall not be considered for participation in the e-auction.

5. The copy of PAN card, Address proof and identity proof, E-mail ID, and declaration if they are bidding on their own behalf or on behalf of their principals. In the latter case, they shall be required to deposit their authority, and in default their bids shall be rejected. In case of the company copy of resolution passed by the board members of the company or any other document confirming representation /attorney of the company and the receipt/counter file of such deposit should reach to the said service provider or CH Bank by e-mail or otherwise by the said date and hard copy shall be submitted before the **Recovery Officer-I, DRT-III, New Delhi.**

6. The successful highest bidder shall have to deposit **25% of his final bid amount** after adjustment of EMD by next bank working day i.e. by **3:00 P.M. in the said account as per detail mentioned in para above.**

7. The successful highest bidder shall deposit the balance **75% of final bid amount** on or before **15th day** from the date of sale of the property. If the **15th day is Sunday or other Holiday**, then on the first bank working day after the 15th day by prescribed mode as stated in para 4 above. In addition to the above the successful highest bidder shall also deposit **poundage fee** with **Recovery Officer-I, DRT-III @2% upto Rs. 1,000/-** and **@1% of the excess of said amount of Rs. 1,000/-through DD in favour of The Registrar, DRT-III.**

8. Property shall remain open for inspection by prospective bidders on **03.04.2020 from 11.00 a.m. to 4.00 p.m.**

9. In case of default of payment within the prescribed period, the property shall be resold, after the issue of fresh proclamation of sale. The deposit, after defraying the expenses of the sale, may, if the undersigned thinks fit, be forfeited to the Government and the defaulting successful highest bidder shall forfeit all claims to the property or to any part of the sum for which it may subsequently be sold.

10. The property is being sold on **"AS IS WHERE IS BASIS AND AS IS WHAT IS BASIS"**.

11. The undersigned reserves the right to accept or reject any or all bids if found unreasonable or postpone the auction at any time without assigning any reason.

12. There is no detail of revenue/encumbrance or claim against the properties in the knowledge of undersigned at this stage. However, prospective bidders are advised to make their own due diligence w.r.t dues of electricity/water/house tax bills or any other encumbrance etc., in their own interest, before deposit of EMD.

13. Unsuccessful bidders are directed to file an application along with identity proof in the Registry of DRT-III on or before the next scheduled date of hearing of the RC for refund of their EMD which shall be refunded on the schedule/subsequent date of hearing of the RC accordingly.

14. CH Bank is directed to authenticate and check the veracity of details given herein.

Given under my hand and seal on this **06th day of February, 2020.**

RECOVERY OFFICER-I,  
DRT-III, DELHI

Form No.:5

**DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, LUCKNOW**

600/1, University Road, Near Hanuman Setu Temple, Lucknow-226007.

(Area of Jurisdiction: Part of Uttar Pradesh)

**Summons for filling Reply & Appearance by Publication**

O.A. No. 413/2019

Date: 28.02.2020

Summons to defendants under Section 19(3) of the Recovery of debts due to the Banks and Financial Institutions Act, 1993 read with rule 12 and 13 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure Rules 1993)

Syndicate Bank, .....Applicant.

Versus

Sanjeev Kumar Shukla And Another.....Defendants

To,

1- Sanjeev Kumar Shukla S/o Devendra Shukla, H.No. 28, Gali no.2, K-Block, Near Sanatan Dharam Mandir, Mahipalpur, New Delhi - 110037 & Village - Purwan Mehra, Post- GI Estate, near Gorakhpur Road, Deoria (U.P.) - 274001.

2- M/s La Residencia Developers Pvt. Ltd., Registered Office at - 195, Ram Vihar, Delhi - 110092 & Corporate Office At - Amrapali Corporate Tower, C-56/40, Sector - 62, Noida, District - Gautam Buddh Nagar - 201309 & Flat No. T-21, 2203, 22th Floor, Tower - T-21, Amrapali La - Residencia, situated at Plot No. GI, Noida Extension, Tehzone-4, District - Gautam Buddh Nagar Through Authorized Signatory.

In the above noted application, you are required to file reply in Paper Book form in two sets along with documents and affidavits, (if any) personally or through your duly authorized agent or legal practitioner in this Tribunal, after serving copy of the same on the applicant or his counsel/ duly authorized agent after publication of the Summons, and thereafter to appear before the Tribunal on 01/06/2020 at 10:30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence.

Registrar: Debts Recovery Tribunal, Lucknow.

**LCRD - New Delhi Division**

The Federal Towers, 2/2, First Floor, West Patel Nagar, New Delhi-110008

Ph No.011-40733978, 79, 80, 82

**FEDERAL BANK**

YOUR PERFECT BANKING PARTNER

**NOTICE U/S 13 (2) OF SARFAESI ACT 2002,** (hereinafter referred to as Act) r/w Rule 3(1) OF SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002.

**1. M/s Jagrit Poultry Farm** a partnership firm having its registered office at H.No-382-B, Old Kothi, Sector-13, Extension, Karnal, Haryana represented by its partners (a) **Shri Atam Parkash S/o Shri Atma Ram** & (b) **Shri Arun Choudhary S/o Shri Atam Parkash.**

**2. Shri Atam Parkash S/o Shri Atma Ram** residing at H.No-382-B, Old Kothi, Sector-13, Extension, Karnal, Haryana.

**3. Shri Arun Choudhary S/o Shri Atam Parkash** residing at House H.No-382-B, Old Kothi, Sector-13, Extension, Karnal, Haryana.

Dear Sir,

Notice issued under section 13(2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (hereinafter referred to as Act)

The 1<sup>st</sup> "if you as principal borrower and 2<sup>nd</sup> and 3<sup>rd</sup> "if you as guarantors/co-obligants had availed of, inter alia, CC Limit of Rs.65 L originally on 29.10.2015 and lastly renewed with enhancement for Rs 90L on 31.03.2018 and Term Loan Limit of Rs.99 L on 29.10.2015 from the Federal Bank Limited, a company registered under the Companies Act, 1956 having registered office at Alwaye (hereinafter referred to as the bank) through its branch at Karnal for working capital requirements. In consideration thereof you had executed in favour of the Bank security agreements, DPN etc. Towards the security of the aforesaid credit facilities availed from the Bank, the all of you have created security interest in favour of the Bank by way of hypothecation in respect of the following properties:-

**DESCRIPTION OF HYPOTHECATED MOVABLE PROPERTIES**

**1. For CC Limit-** Hypothecation of stocks of feeds, medicine sat 25% margin stored at Village Kunjipura, Mugaj Majra Road, Karnal-132001, Haryana.

**2. For TL Limit-** Hypothecation of plant & machinery, cages, feed trolley, generator set, pump set etc created out of Bank Finance.

Towards the security of the aforesaid credit facilities availed from the Bank, Mr Arun Choudhary had created security interest in favour of the Bank by way of mortgage in respect of the following immovable properties on 31/10/2015 and later the said mortgage created was extended from time to time. The last of such extension being 19/04/2018. The said mortgage is continuing in respect of the said credit facilities availed.

**DESCRIPTION OF MORTGAGED IMMOVABLE PROPERTY**

Item (1)- All that piece and parcel of the property bearing House M.C. No. 382-B Located at Sector 13 Extension, HUDA Urban Estate, Karnal, Haryana State having an area measuring 264 sq. yards, together with all buildings existing and/or to be constructed, bounded on the East by 45'-6" & 8'-3", House of Praveen Kumar, West by 11'-5" & 4'-9" House of Sanjeev Kumar, North by 41'-11" Closed Gali and South by 43'-0", Closed Gali.

The aforesaid hypothecated assets mentioned in the notice and the mortgaged properties mentioned at item (1) hereinafter referred to as "the secured assets". The undersigned being Authorised Officer of the Federal Bank Ltd. hereby inform you that a sum of ₹ 93,88,634.00 (Rupees Ninety Three Lac Eighty Eight Thousand and Six Hundred Thirty Four only) in Cash Credit Account No. 16495500000082 as on 03-01-2020 & ₹ 55,52,304.38 (Rupees Fifty Five Lac Fifty Two Thousand Three Hundred Four & Paise Thirty Eight only) in Term Loan Account No. 16496600000071 as on 31.01.2020, is an amount totalling ₹ 1,49,40,938.38 (Rupees One Crore Forty Nine Lac Forty Thousand Nine Hundred Thirty Eight and Paise Thirty Eight only) is due from you jointly and severally under your loan accounts with Karnal branch of the Bank. In view of the default in repayment, your loan accounts/ is/are classified as Non-Performing Asset, as per the guideline of RBI. All of your as co-obligant/co-borrower and also in the capacity of legal heirs are liable to pay the dues of the Bank. You are hereby called upon to pay the said amount with further interest interest@ 11% per annum with monthly rests plus penal interest @ 2% per annum from 01/01/2020 in CC Limit 16495500000082 and interest @ 10.50% per annum from 01-02-2020 with monthly rests plus penal interest @ 2% per annum in TL 16496600000071, failing which, the Bank will exercise all the powers under section 13 of the Act against you and the above mentioned secured assets such as taking possession thereof including the right to transfer them by way of lease, assignment or sale, or taking over the management of the secured assets for realising the dues without any further notice to you. It is informed that, you shall not transfer by way of sale, lease or otherwise any of the above mentioned secured assets without the Bank's written consent. In the event of your failure to discharge your liability and the bank initiates remedial actions as stated above, you shall further be liable to pay to the bank all cost, charges and expenses incurred in that connection. In case the dues are not fully satisfied with the sale proceeds of the secured assets, the bank shall proceed against you personally for the recovery of the balance amount without further notice. Your attention is also invited to the provisions of section 13 (8) of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets (security properties). This notice was issued on 24<sup>th</sup> day of February 2020 but seems not received by you, which necessitated this publication as per the SARFAESI Act. This notice is issued without prejudice to the other rights and remedies available to the bank for recovering its dues.

**DESCRIPTION OF HYPOTHECATED MOVABLE PROPERTIES**

**1. For CC Limit-** Hypothecation of stocks of feeds, medicine sat 25% margin stored at Village Kunjipura, Mugaj Majra Road, Karnal-132001, Haryana.

**2. For TL Limit-** Hypothecation of plant & machinery, cages, feed trolley, generator set, pump set etc created out of Bank Finance.

Towards the security of the aforesaid credit facilities availed from the Bank, Mr Arun Choudhary had created security interest in favour of the Bank by way of mortgage in respect of the following immovable properties on 31/10/2015 and later the said mortgage created was extended from time to time. The last of such extension being 19/04/2018. The said mortgage is continuing in respect of the said credit facilities availed.

**DESCRIPTION OF MORTGAGED IMMOVABLE PROPERTY**

Item (1)- All that piece and parcel of the property bearing House M.C. No. 382-B Located at Sector 13 Extension, HUDA Urban Estate, Karnal, Haryana State having an area measuring 264 sq. yards, together with all buildings existing and/or to be constructed, bounded on the East by 45'-6" & 8'-3", House of Praveen Kumar, West by 11'-5" & 4'-9" House of Sanjeev Kumar, North by 41'-11" Closed Gali and South by 43'-0", Closed Gali.

The aforesaid hypothecated assets mentioned in the notice and the mortgaged properties mentioned at item (1) hereinafter referred to as "the secured assets". The undersigned being Authorised Officer of the Federal Bank Ltd. hereby inform you that a sum of ₹ 93,88,634.00 (Rupees Ninety Three Lac Eighty Eight Thousand and Six Hundred Thirty Four only) in Cash Credit Account No. 16495500000082 as on 03-01-2020 & ₹ 55,52,304.38 (Rupees Fifty Five Lac Fifty Two Thousand Three Hundred Four & Paise Thirty Eight only) in Term Loan Account No. 16496600000071 as on 31.01.2020, is an amount totalling ₹ 1,49,40,938.38 (Rupees One Crore Forty Nine Lac Forty Thousand Nine Hundred Thirty Eight and Paise Thirty Eight only) is due from you jointly and severally under your loan accounts with Karnal branch of the Bank. In view of the default in repayment, your loan accounts/ is/are classified as Non-Performing Asset, as per the guideline of RBI. All of your as co-obligant/co-borrower and also in the capacity of legal heirs are liable to pay the dues of the Bank. You are hereby called upon to pay the said amount with further interest interest@ 11% per annum with monthly rests plus penal interest @ 2% per annum from 01/01/2020 in CC Limit 16495500000082 and interest @ 10.50% per annum from 01-02-2020 with monthly rests plus penal interest @ 2% per annum in TL 16496600000071, failing which, the Bank will exercise all the powers under section 13 of the Act against you and the above mentioned secured assets such as taking possession thereof including the right to transfer them by way of lease, assignment or sale, or taking over the management of the secured assets for realising the dues without any further notice to you. It is informed that, you shall not transfer by way of sale, lease or otherwise any of the above mentioned secured assets without the Bank's written consent. In the event of your failure to discharge your liability and the bank initiates remedial actions as stated above, you shall further be liable to pay to the bank all cost, charges and expenses incurred in that connection. In case the dues are not fully satisfied with the sale proceeds of the secured assets, the bank shall proceed against you personally for the recovery of the balance amount without further notice. Your attention is also invited to the provisions of section 13 (8) of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets (security properties). This notice was issued on 24<sup>th</sup> day of February 2020 but seems not received by you, which necessitated this publication as per the SARFAESI Act. This notice is issued without prejudice to the other rights and remedies available to the bank for recovering its dues.

**DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY**

**Lot 1 :** Rs. 377.78 Lakhs (Rupees Three Hundred Seventy Seven Lakhs and Seventy Eight Thousand Only)

**Lot 2 :** Rs. 261.62 Lakhs (Rupees Two Hundred Sixty One Lakhs and Sixty Two Thousand Only)

**Lot 3 :** Rs. 261.62 Lakhs (Rupees Two Hundred Sixty One Lakhs and Sixty Two Thousand Only)

**Lot 4 :** Rs. 261.62 Lakhs (Rupees Two Hundred Sixty One Lakhs and Sixty Two Thousand Only)

**(All Reserve Price is inclusive of 1% TDS amount as per Section 194IA of IT Act)**

**Date & Time of auction**

20.04.2020 from 11.00 a.m to 1.00 p.m. with auto extension of five minutes till sale is completed.

**EMD**

Lot 1: Rs. 37.78 Lakhs, Lot 2: Rs. 26.16 Lakhs, Lot 3: Rs. 26.16 Lakhs Lot 4: Rs. 26.16 Lakhs

**Bid multiplier**

Rs.1.00 Lakh

**Auto extension time**

5 Mins

**Known Encumbrance if any**

None

**Inspection Date & Time**

During Business Hours with prior appointment from bank

**EMD start date**

16.03.2020 onwards

**Last date for submission of online application for BID with EMD**

18.04.2020 (till 5.00 pm)

\*Bank's dues have priority over the statutory dues.  
\* This notice is also to be treated as 30 days notice under rule-8(6) of the Securities Interest (Enforcement) rules-2002 for the borrower/guarantors/mortgagors.  
For terms and conditions please visit:  
<https://www.iob.info/e-Auctions.aspx> <https://www.publishenders.gov.in> <https://auctions.magicbricks.com>  
For further details regarding inspection of property / e-auction, the intending bidders may contact the Branch Manager, Indian Overseas Bank, Rajouri Garden, F-105, Ball Nagar, New Delhi-110015 during office hours, or contact Shri Christhuvaraj M (Chief Manager) Mob No: 9849036103; Shri Rajendra Kumar Morwal: 9818344514, 011-25105131 or, the Bank's approved service provider M/s Magicbricks reality services Ltd, auction helpline No 9212346000, Mr Mohit Sharma : 9837778407, auction helpline email : [auction@magicbricks.com](mailto:auction@magicbricks.com) and [mohit.sharma5@magicbricks.com](mailto:mohit.sharma5@magicbricks.com)

**Place:** New Delhi

**Date:** 13.03.2020

**Authorised Officer,** Indian Overseas Bank

Dated this the 12<sup>th</sup> Day of March 2020 For The Federal Bank Ltd., Assistant Vice President (Authorised Officer under SARFAESI Act)

Pak investigates owner of largest media group on graft charges

APAKISTANI COURT on Friday allowed an anti-corruption body to investigate the owner of the country's largest media group on allegations of graft dating back three decades, a move that rights groups said was aimed at stifling press freedom. Mir Shakil-ur-Rehman, the owner and editor-in-chief of Jang media group, publisher of Urdu and English newspapers and which runs the popular *Geo News TV*, was arrested on Thursday by the National Accountability Bureau (NAB). NAB accused him of obtaining illegal property concessions from a previous government in 1986. —REUTERS

**Kotak Mahindra Bank Limited**

REGISTERED OFFICE: 27BKC, C-27, G-BLOCK, BANDRA KURLA COMPLEX, BANDRA ( E ), MUMBAI- 400051  
BRANCH OFFICE: 7TH FLOOR, PLOT NO.7, SECTOR – 125, NOIDA NEAR DELL CAMPUS, UP – 201313

WHEREAS, THE AUTHORIZED OFFICER OFBAJAJ FINANCE LIMITED(BFL), UNDER THE SECURITIZATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 (54 OF 2002) AND IN EXERCISE OF POWERS CONFERRED UNDER SECTION 13(12) READ WITH RULE 3 OF THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES 2002 ISSUED DEMAND NOTICES TO THE BORROWER/S. AS DETAILED HEREUNDER, CALLING UPON THE RESPECTIVE BORROWERS TO REPAY THE AMOUNT MENTIONED IN THE SAID NOTICES WITH ALL COSTS, CHARGES AND EXPENSES TILL ACTUAL DATE OF PAYMENT WITHIN 60 DAYS FROM THE DATE OF RECEIPT OF THE SAME. LATER ON BAJAJ FINANCE LIMITED HAS VIDE DEED OF ASSIGNMENT DATED 19.12.2018 HAS ASSIGNED THE DEBT TO KOTAK MAHINDRA BANK. THE SAID BORROWER(S)/ CO BORROWER(S) HAVING FAILED TO REPAY THE AMOUNT, NOTICE IS HEREBY GIVEN TO THE BORROWERS/ CO BORROWERS AND THE PUBLIC IN GENERAL THAT THE UNDERSIGNED BEING THE AUTHORIZED OFFICER OF KOTAK MAHINDRA BANK HAS TAKEN PHYSICAL POSSESSION OF THE PROPERTY DESCRIBED HEREUNDER IN EXERCISE OF POWERS CONFERRED ON HIM UNDER SECTION 13(4) OF THE SAID ACT R/W RULE 8 OF THE SAID RULES ON THE DATES MENTIONED ALONG-WITH, THE BORROWERS IN PARTICULAR AND PUBLIC IN GENERAL ARE HEREBY CAUTIONED NOT TO DEAL WITH THE PROPERTIES AND ANY DEALINGS WITH THE PROPERTIES WILL BE SUBJECT TO THE CHARGE OF KOTAK MAHINDRA BANK LTD., FOR THE AMOUNT SPECIFIED THEREIN WITH FUTURE INTEREST, COSTS AND CHARGES FROM THE RESPECTIVE DATES. THE BORROWERS ATTENTION IS INVITED TO PROVISIONS OF SUB SECTION (8) OF SECTION 13 OF THE ACT, IN RESPECT OF TIME AVAILABLE TO REDEEM THE SECURED ASSETS. DETAILS OF THE BORROWERS, SCHEDULED PROPERTY, OUTSTANDING DUES, DEMAND NOTICES SENT UNDER SECTION 13(2) AND AMOUNTS CLAIMED THERE UNDER, DATE OF POSSESSION IS GIVEN HEREIN BELOW:-

NAME AND ADDRESS OF THE BORROWER, CO-BORROWER LOAN ACCOUNT NO., LOAN AMOUNT	DETAILS OF THE IMMOVABLE PROPERTY	1. DATE OF POSSESSION 2. DEMAND NOTICE DATE 3. AMOUNT DUE IN RS.
<b>MR. AJAY MAINI S/O LATE P.L. MAINI &amp; MR. RAKSHAK MAINI S/O MR. AJAY MAINI BOTH AT RESIDING AT HOUSE NO. C- 3, 3RD FLOOR, DEFENCE COLONY, NEW DELHI- 110024, M/S MAINI SCAFFOLD SYSTEMS THROUGH ITS PARTNERS &amp; M/S MAINI CONSTRUCTION EQUIPMENTS PVT LTD. THROUGH ITS DIRECTORS BOTH AT: CARRYING ON BUSINESS AT B-1, A-21, (GROUND FLOOR) MOHAN CO. OPERATIVE INDUSTRIAL ESTATE, NEW DELHI-110044</b> <b>LOAN ACCOUNT NO. : 4010HL14339547</b> <b>LOAN SANCTIONED AMOUNT: RS. 3,65,00,000/- (RUPEES THREE CRORE SIXTY FIVE LAKH ONLY)</b>	ALL THAT PIECE AND PARCEL OF THE NON-AGRICULTURAL PROPERTY DESCRIBED AS "PROPERTY NO. 81, BLOCK-C, SECTOR-23, GAIL VIHAR, NOIDA 201301. PROPERTY AS PER TITLE DOCUMENT: ALL THAT PIECE AND PARCEL OF RESIDENTIAL LEASE HOLD PLOT NO. 81, SITUATED AT BLOCK-C SECTOR -23, NOIDA DISTT. GAUTAM BUDH NAGAR (U.P.) HAVING PLOT AREA MEASURING 300 SQ. MTRS. ALONG WITH BUILT-UP STRUCTURE STANDING THEREON HAVING TOTAL COVERED AREA 389.26 SQ. MTRS. DULY ALLOTTED BY THE NOIDA AUTHORITY	1). 12.03.2020 2). 27.10.2016 3). RS. 5,02,46,355/- (RUPEES FIVE CRORE TWO LAKH FORTY SIX THOUSAND THREE HUNDRED FIFTY FIVE ONLY) AS OF 24.02.2020 WITH FURTHER APPLICABLE INTEREST FROM 25.02.2020 ALONGWITH COST AND CHARGES UNTIL PAYMENT IN FULL.

Date: 12.03.2020

Place: DELHI

For Kotak Mahindra Bank Limited  
Authorized Officer

For Any Query Please Contact Mr. Lokesh Kumar Mittal (+91 8377809456)

**सिंडिकेट बैंक**  
**Syndicate Bank**

सर्वोपरि, सौजन्य, मित्रता  
सर्वोपरि, सौजन्य, मित्रता

सर्वोपरि, सौजन्य, मित्रता

11/09-11/09 A Silver Line, VIP Road, Civil Lines, Kanpur- 208001, Uttar Pradesh

Ph. 0512-2530412 • E-mail : [ro.kanpur@syndicatebank.co.in](mailto:ro.kanpur@syndicatebank.co.in)

**E –Auction sale notice under SARFAESI Act 2002**

**Sale of immovable assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002\* (here in after referred to as the Act).**

Notice is hereby given to the public in general and to the Borrower/s and Guarantor/s in particular that the under mentioned property/ies mortgaged to Syndicate Bank, the possession of which has been taken by the Authorized Officer of the Bank under Section 13(4) of the Act will be sold by E- Auction as mentioned below for recovery of under mentioned dues and applicable interest, charges and costs etc as detailed below.

The property described below is being sold on **"AS IS WHERE IS, WHATEVER THERE IS AND WITHOUT RECOURSE BASIS"** under the rule no. 8 & 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules (hereinafter referred to as the rules) for the recovery of the dues detailed as under:

SL No.	Name and Address of Borrower/ Guarantor and Branch	Description of the immovable/Movable properties with name of the Owner/Mortgagars	Possession Date Date of Sale Notice Present O/s Amount	Reserve Price Earnest Money Bid Increase Amount	Date/Time E-Auction
1.	<b>1. M/s Nysha Transport Company Prop Amit Nayak</b> , 1178, Near BGM School, Shivaji Nagar, Jhansi-284001. <b>2. Sri Amit Nayak S/o Sri Harnarayan Nayak R/o 1178</b> , Near BGM School, Shivaji Nagar, Jhansi-284001. <b>Surety: 1. Sri Sumit Nayak S/o Sri Shivrinarayan Nayak R/o 1178</b> , Near BGM School, Shivaji Nagar, Jhansi-284001, <b>2. Sri Manish Verma S/o Sri Jaychand Verma R/o 184</b> , Shivaji Nagar, Dadiyapura, Jhansi-284001. <b>Branch:</b> Kanpur Road, Jhansi	UREM OF THE RESIDENTIAL PROPERTY SITUATED AT HOUSE NO.-1178 (PART OF ARAZI NO.-180) TALPURA, SHIVAJI NAGAR, JHANSI <b>ADMEASURING AREA 152.88 SQUARE METERS</b> owned by <b>Sri AMIT KUMAR NAYAK S/o Sri HARNARAYAN NAYAK &amp; Sri SUMIT KUMAR NAYAK S/o Sri SHIVNARAYAN NAYAK</b> and <b>Boundaries : East :</b> PLOT OF OTHERS, <b>West :</b> PLOT OF TRIVEDI AFTER HOUSE OF ANGAD SINGH GAUR, <b>North :</b> KACHHA WAY 15 Feet <b>WIDE, South :</b> PLOT OF CHAURASIYA.	17.10.2019	Rs. 40,13,000.00	21.04.2020
			26.02.2020	Rs. 4,02,000.00	At 10.00 A.M. to 12.00 Noon
			Rs. 10,43,380.00 +with future interest, cost and Expense from 01.08.2019	Rs. 10,00,000	
2.	<b>1. Sri Vishal Gupta S/o Sri Satish Gupta</b> , 68/85, Khoyba Bazar, Kanpur, <b>2. Sri Chandan Gupta S/o Sri Satish Gupta</b> , 68/85, Khoyba Bazar, Kanpur, <b>Surety: Sri Arvind Sinha S/o Late Sri B.B. Sinha</b> , 110/32, Jawahar Nagar, Kanpur, <b>Branch:</b> Sarvodaya Nagar, Kanpur.	UREM of All the Part and parcel of Property consisting Plot No.-5, Part of Arazi No.-94, Village-Hora Banger, Kanpur Nagar <b>admeasuring 83.61 Sq Meter</b> Owned By <b>Sri Vishal Gupta S/o Sri Satish Gupta</b> and <b>Boundries : North :</b> 20 Feet wide Road, <b>South :</b> Arazi No. 95, <b>East :</b> Plot No. 4, <b>West :</b> Plot No 6.	21.09.2011	Rs. 8,50,000.00	21.04.2020
			26.02.2020	Rs. 85,000.00	At 10.00 A.M. to 12.00 Noon
			Rs. 18,41,100.00 +with future interest, cost and Expense from 01.01.2020	Rs. 10,00,000	